



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 फाल्गुन 1940 (श10)  
(सं० पटना 464) पटना, बुधवार, 20 मार्च 2019

---

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना  
17 अप्रैल 2018

सं० 187—पटना जिलान्तर्गत श्री विभूतिनाथ मंदिर, रोड नं०- 2, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं०- 4445 है।

इस न्यास के संबंध में स्थानीय जनता द्वारा एक आवेदन वर्ष 2015 में पर्षद कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन में न्यास का निबंधन पर्षद में किये जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ। इसके आलोक में पर्षदीय पत्रांक-1386, दिनांक 30/07/15 द्वारा अंचलाधिकारी, सदर, पटना को न्यास स्थल के जांच हेतु पत्र दिया गया। तदनुसार अंचलाधिकारी, सदर, पटना का जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्षद में प्राप्त हुआ। इसके उपरांत अंचलाधिकारी, सदर, पटना को पुनः एक पत्र “मंदिर के निर्माण—काल एवं जमीन की प्रकृति” के संबंध में पत्र दिया गया। उक्त पत्र के आलेक में अंचलाधिकारी, सदर द्वारा पत्रांक-2832, दिनांक 12/04/16 द्वारा प्रतिवेदित किया कि मंदिर आवास बोर्ड की भूमि पर अवस्थित है एवं मंदिर का स्थापना वर्ष 1969 है। तदनुसार अंचलाधिकारी, सदर के प्रतिवेदन के आलोक में दिनांक 30/09/16 को मंदिर का निबंधन पर्षद में किया गया। निबंधनोपरांत स्थानीय जनता द्वारा न्यास समिति गठन हेतु 11 नामों की सूची पर्षद को प्राप्त हुई। उक्त प्राप्त नामों के चरित्र—सत्यापन हेतु पर्षदीय पत्रांक-2410, दिनांक 13/02/18 द्वारा थाना प्रभारी, कंकड़बाग, पटना को पत्र प्रेषित किया गया। इसके आलोक में श्री केशव कुमार तिवारी, पु०अ०नि०, कंकड़बाग, पटना का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

उक्त परिस्थिति में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950, की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके संचालन के लिए न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 8 (क) सह पठित धारा- 32 (1) एवं 81 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्री विभूतिनाथ मंदिर, रोड नं०- 2, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री विभूतिनाथ मंदिर न्यास योजना, रोड नं०- 2, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना”** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री विभूतिनाथ मंदिर न्यास समिति, रोड नं०- 2, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना”** जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। यह विवरणी मार्गदर्शिका के आलोक में देय होगा।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि “यदि कोई हो तो”, उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. श्री धर्मनाथ प्रसाद वर्मा—<br>(अ०प्रा० जिला न्यायाधीश), रेखा मेंसन, प्लैट सं०- 302, कंकड़बाग, पटना- 20      | अध्यक्ष      |
| 2. श्री कृष्ण नन्दन शर्मा—<br>पिता- स्व० कुलदीप सिंह, ए- 66, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना- 20                 | उपाध्यक्ष    |
| 3. श्री सुनील कुमार सिन्हा—<br>पिता- स्व० राम शरण सिन्हा, जी- 97, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना- 20            | सचिव         |
| 4. श्री उज्जवल कुमार उर्फ रिकु—<br>पिता- श्री वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा, ए- 9, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना- 20   | संयुक्त सचिव |
| 5. श्री संजय सिंह—<br>पिता- स्व० यदुवंश सिंह, ए- 173, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना- 20                        | संरक्षक      |
| 6. श्री स्वामी विवेकानन्द सिंह—<br>पिता- स्व० केशव सिंह, जगदेवन अपार्टमेंट, प्लैट नं०- 108, कंकड़बाग, पटना- 20 | संरक्षक      |
| 7. श्री फणिभूषण उर्फ दीपक—<br>पिता- श्री विभूति भूषण तिवारी, ए- 61, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना- 20          | सदस्य        |
| 8. श्री अंजनी कुमार—<br>पिता- श्री युगेश्वर शर्मा, ए- 181, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना- 20                   | सदस्य        |
| 9. श्री पंकज कुमार—<br>पिता- श्री अवधि किशोर प्रसाद, ए- 183, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना- 20                 | सदस्य        |

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 10. | श्री शैलेश कुमार—<br>पिता— श्री बालमुकुन्द सिन्हा, ए— 182, पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना— 20   | सदस्य |
| 11. | श्री प्रवीण चन्द्र—<br>पिता— श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह, ए— 184, पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना— 20   | सदस्य |
| 12. | उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी। |       |

विश्वासभाजन,  
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,  
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 464-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>